

VITAMIN C

1000mg


FROM
AMLA
EXTRACT +ZINC

**BOOSTS
METABOLISM**

**BOOSTS
ENERGY LEVELS**

**BOOSTS
IMMUNITY**

**RICH IN
ANTIOXIDANTS**



**BUILDS STRONG
DEFENCE MECHANISM
OF THE BODY**

**REPAIRS
DRY HAIR & SKIN**

**BRIGHTENS
COMPLEXION**

**NO GASTRIC
DISCOMFORT**

Vitamin C, also known as ascorbic acid, is one of the essential nutrients that are critical for vital functioning of the body. To boost immune system, strengthen joints or to increase skin glow, vitamin C is the best ingredient. However, daily meals we eat cannot fulfil the required nutrition of everyday basis, hence there is a need to add supplement to fulfil our daily requirement.

Key Ingredients:

Vitamin C:

Helps to boost immunity, reduces the risk of age-related macular degeneration and improves eyesight.

Zinc:

Helps to boost immunity, metabolism function & energy production in the body.

Dose

Take one tablet daily after meal or as directed by the healthcare professional.



विटामिन सी

1000mg

आंवला अर्क + जिंक द्वारा

मेटाबॉलिज्म
को बूस्ट करता है

ऊर्जा के स्तर
को बढ़ाता है

रोग प्रतिरोधक क्षमता
को बढ़ाता है

एंटीऑक्सीडेंट
से भरपूर

शरीर की सुरक्षा प्रणाली
को मजबूत बनाता है

रूखे बालों और त्वचा को
बेहतर बनाने में मदद करता है

रंग निखारने में
मदद करता है

पाचन तंत्र से सम्बंधित समस्या
जैसे गैस्ट्रिक आदि से बचाने में मदद करता है



विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है जो शरीर के महत्वपूर्ण कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने, जोड़ों को मजबूत करने और त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए विटामिन सी सबसे अच्छा घटक है। हालाँकि, हम जो दैनिक भोजन खाते हैं वह रोजमर्रा के आवश्यक पोषण को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए हमारी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विटामिन सी आवश्यक है।

मुख्य सामग्री:

आंवला अर्क:

रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने और आंखों की रोशनी में सुधार करने में मदद करता है।

जिंक:

शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता चयापचय कार्य और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है।

डोज़:

प्रतिदिन 1 टेबलेट
भोजन के बाद

या चिकित्सक द्वारा निर्देशानुसार।

